

दिनांक 17 नवम्बर, 2018 को सायं 07:45 से 08:27 बजे तक मर्चेट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, रोटरी क्लब ऑफ कानपुर वेस्ट व् नीम ट्री मोर्निंग वाकर्स क्लब के संयुक्त तत्वाधान में “शक : A Drama You Can Not Imagine” पर नाटक का आयोजन किया गया।

**“शक A Drama You Can Not Imagine” नाटक के बारे में:**

“ शक बुरी बात है .. पर कभी कभी इस से जिंदगी बन भी जाती है ” : पत्नी के लिये प्रेम की पराकाष्ठा है ”  
शक .....!! ”

“नाटक ‘शक’ में चार केंद्रीय पात्रों के माध्यम से दिखाया गया की : एक दुर्घटना में पति अमर चौहान जो एक थियेटर और टीवी कलाकार था। वह अपाहिज हो जाता है और धीमें-धीमें ये महसूस करता है की उसकी पत्नी कविता का झुकाव उसके सबसे करीबी मित्र सागर की तरफ हो रहा है। वह अपनी पत्नी एवं मित्र के उपर शक करने लगता है और एक दिन (अमर चौहान) उन दोनों (कविता और सागर) को एक साथ पकड़ लेता हैं। लेकिन क्या उसका शक सही था ? या वो कोई नाटक कर रहा था ?

‘शक’ इसी विषय पर आधारित हैं। अपनी पत्नी के अभिनय की प्रतिभा को सामने लाने के लिये ही पति ने एक ऐसा नाटक किया जिससे एक घरेलू महिला के हुनर का अहसास सभी को हो सका।

‘शक’ में चिकित्सक किरदार के जरिये “परिवार की इकाई को टूटने से बचाने” का सन्देश दिया गया और यह भी दर्शाया गया की वर्तमान में आगे बढ़ने की दौड़ में व्यक्ति कब इतने आगे निकल जाता है उसे पता नहीं चलता के कब उसने अपनों को खो दिया।”

‘शक’ नाटक का निर्देशन श्री राघव त्रिपाठी ने किया। ‘शक’ की कहानी राघव त्रिपाठी ने लिखी एवं नाटक में पति (अमर चौहान) का किरदार भी स्वयं राघव ने निभाया। आयोजित नाटक में पत्नी (कविता) का किरदार कानपुर की ही रंगकर्मी आकांक्षा शुक्ला ने निभाया। उक्त नाटक में चिकित्सक का अभिनय शहर के प्रमुख आई सर्जन “डा. अवध दुबे ने किया। कई हिंदी फिल्मों एवं धारावाहिकों में अभिनय कर चुके अभिनेता शान खान ‘शक’ (सागर किरदार) की केन्द्रीय भूमिका में थे। सम्पूर्ण नाटक में शान की भूमिका शक के घरे में थी। .

लगभग 42 मिनट के नाटक ने न सिर्फ दर्शकों को गुदगुदाया बल्कि बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर भी किया। ‘शक’ को दर्शकों की खूब सराहना और तालियाँ मिली। नाटक के दौरान आडियो, वीडियो और लाइट के अदभुत संयोजन ने दर्शको को खुद नाटक के किरदार के तौर पर जिया। दर्शकों ने इस अभिनव प्रयोग की खूब सराहना भी की।

नाटक में उपस्थित प्रमुख गणमान्य: मर्चेट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री बी.एम. गर्ग, कल्चरल कमेटी के चेयररमैन डॉ. आई.एम. रोहतगी व् सचिव महेंद्र नाथ मोदी, रोटरी क्लब ऑफ कानपुर वेस्ट के अध्यक्ष श्री के.जी. गर्ग व् सचिव राजेंद्र सिंह, नीम ट्री मोर्निंग वाकर्स क्लब के चेयरमैन श्री जे.के लोहिया व् सचिव श्री राजीव मेहरोत्रा, तथा समस्त सहयोगी संस्थाओं के सदस्यगण अपने पारिवारिक सदस्यों व् मित्रों के साथ उपस्थित थे।

ये भी मौजूद रहे : बी.के. श्रिया, टीकम चन्द्र सेठिया, मनमोहन अग्रवाल, शरद शाह, स्वतंत्र सिंह, ओम प्रकाश अग्रवाल, विजय नारायण अग्रवाल, उमेश पाण्डेय, आदि।